



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2015-ज्येष्ठ 22, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF SURNAME

This is for information of general public that till this date my name in some official records has been written as 'Sanjay Goel' I have now corrected and changed my name/spellings to 'Sanjay Goyal'. After this date, I shall be known/identified as 'Sanjay Goyal' and recorded as 'Sanjay Goyal' in all documents.

Old Surname :

(SANJAY GOEL)

(46-B.)

New Surname :

(SANJAY GOYAL)

S/o Chaman Lal, 1, Civil Lines,
Ratlam (M. P.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण के सूचनार्थ मेरा नाम पूर्व में मेरे समस्त रिकॉर्ड में संजय कुमार दुबे अंकित है एवं अब परिवर्तित नाम संजय दुबे हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नए नाम संजय दुबे तनय श्री सतीश चन्द्र दुबे के नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

(संजय कुमार दुबे)

(120-बी.)

नया नाम :

(संजय दुबे)

गैस गोदाम के पीछे, गली नं.-8,
राजेन्द्र नगर, सतना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व में मेरा नाम पिंकी पिता घनश्यामदास वाधवानी था, जो कि अब परिवर्तित होकर नया नाम पलक पति विशाल वाधवानी हो गया है. अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम पलक पति विशाल वाधवानी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(पिंकी)

पिता-घनश्यामदास वाधवानी

(118-बी.)

नया नाम :

(पलक)

पति-विशाल वाधवानी
16, देवेन्द्र नगर, अन्नपूर्णा रोड,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

समस्त जनता को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विजय कुमार सराठे पिता श्री संतोष कुमार सराठे, निवासी-होटल वेलकम के पीछे, कोतमा तिराहा, वार्ड नं. 32, जिला शहडोल मध्यप्रदेश है, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक, शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेज में लिखित है, परन्तु अब मैंने अपना नाम विजय सिंह पिता श्री संतोष कुमार सराठे अपना लिया है. अतः मुझे भविष्य में समस्त शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में और व्यवहार में विजय सिंह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम :

(विजय कुमार सराठे)

(119-बी.)

नया नाम :

(विजय सिंह)

पिता-श्री संतोष कुमार सराठे
निवासी-होटल वेलकम के पीछे, कोतमा तिराहा,
वार्ड नं. 32, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

मैं, नारायण कश्यप आत्मज्ञ स्व. श्री दिक्का लाल कश्यप जाति ढीमर. मेरा बड़ा पुत्र शिवम कश्यप के शालेय अभिलेखों में कक्षा 5वीं से 12वीं में नाम शिवम भारतीय पिता अघनू भारतीया अंकित है जो कि गलत है. मेरे पुत्र का नाम शिवम कश्यप पिता नारायण कश्यप, माता दुर्गा कश्यप है तथा भविष्य में उक्त नाम से जाना-पहचाना लिखा व पढ़ा जावेगा एवं समस्त दस्तावेजों में शिवम कश्यप पिता नारायण कश्यप, माता दुर्गा कश्यप का नाम ही अंकित किया जावेगा.

पुराना नाम :

(अघनू भारतीया)

(121-बी.)

नया नाम :

(नारायण कश्यप)

पिता-स्व. श्री दिक्का लाल कश्यप,
निवासी-ग्राम सिंगारपुर, थाना मोहगाँव,
तहसील घुघरी, जिला मण्डला (मध्यप्रदेश).

आम सूचना

मैसर्स श्री दिवाक फुड प्रॉडक्ट्स, 58, फुड प्रोसेस पार्क, इण्डस्ट्रीयल एरिआ, जग्गाखेड़ी, मंदसौर मध्यप्रदेश जिसका फर्म पंजीयन क्रमांक 07/35/000/957/15, दिनांक 08-01-2015 है, के संविधान में किये गये परिवर्तन की सूचना :-

1. उक्त भागीदारी फर्म से भागीदार श्री सुनिल अग्रवाल पिता श्री राजमल जी अग्रवाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी 7/2, सुदामा नगर, रामटेकरी, मंदसौर अपनी स्वेच्छा से दिनांक 21-04-2015 से निवृत्त हो चुके हैं.
2. यह भी कि उक्त भागीदारी फर्म का रजिस्टर्ड कार्यालय का पता परिवर्तन होकर 16/15, चौधरी कॉलोनी, मंदसौर हो गया है, दिनांक 21-04-2015 से.

द्वारा

फर्म-श्री दिवाक फुड प्रॉडक्ट्स, मंदसौर
शैलेन्द्र सोनी
(भागीदार).

(122-बी.)

जाहिर सूचना

फर्म मैसर्स टाईमग्लास कंस्ट्रक्शन, पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00112/12, दिनांक 24-07-2012 पंजीयन है, जिसमें दिनांक 05-03-2012 को 1. श्री किशोर सचदेव पिता परसराम सचदेव, 2. श्री अमित शर्मा पिता वृन्दावनलाल शर्मा भागीदार थे. दिनांक 30-09-2013 को दीपक बामन पिता श्री यू. आर. बामन, श्री विपुल बामन पिता यू. आर. बामन, श्री संदीप बड़जात्या पिता श्री कैलाश बड़जात्या फर्म के भागीदार के रूप में प्रवेश कर रहे हैं तथा श्री किशोर सचदेव पिता परसराम सचदेव, 2. श्री अमित शर्मा पिता वृन्दावनलाल शर्मा फर्म से पृथक् हो रहे हैं. उक्त सूचना सर्व विदित हो.

For :- Timeglass Constructions

संदीप बड़जात्या,
(Partner).

(123-बी.)

जाहिर सूचना

फर्म मैसर्स टाईमग्लास कंस्ट्रक्शन, पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00112/12, दिनांक 24-07-2012 पंजीयन है, इस फर्म में दीपक, विपुल पिता यू. आर. बामन, संदीप पिता कैलाश बड़जात्या भागीदार थे, दिनांक 10-07-2014 को ईशान पिता संदीप बड़जात्या भागीदार के रूप में प्रवेश कर रहे हैं एवं दीपक व विपुल फर्म से पृथक् हो रहे हैं. इस फर्म में संदीप बड़जात्या एवं ईशान बड़जात्या भागीदार रहेंगे. उक्त सूचना सर्व-विदित हो.

For :- Timeglass Constructions

संदीप बड़जात्या
(Partner).

(123-A-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म पुष्पेन्द्र गैस सर्विस, राजेन्द्र नगर, सतना (रजि. क्र. संख्या 15) से सीनियर पार्टनर मेजर रामराज सिंह का 28 मई, 2011 को दुखद निधन हो जाने के कारण उन्हें फर्म से पृथक् किया जाता है. तत्पश्चात् यादवेन्द्र सिंह एवं श्रीमती राकेश सिंह बतौर पार्टनर यथावत् रहेंगे.

Pushpendra Gas Service

यादवेन्द्र सिंह,

राकेश सिंह

(Partner's).

(124-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हम लोग:-

1. अभिमन्यु सिंह पुत्र श्री सुभाष सिंह, भोपाल,
2. श्रीमती दीपमाला राजपूत पत्नी दीपक राजपूत, भोपाल,
3. करन सिंह पुत्र श्री संतोष सिंह, भोपाल,
4. प्रतीक दीक्षित पुत्र श्री श्रीप्रकाश दीक्षित, भोपाल.

“एप्पल मीडिया एण्ड इंटरटेनमेंट के नाम से कम्पनी केयर टेक सर्विस” के नाम से जानी जाती है इसका पता शॉप नं. 7, विश्वनाथ मंदिर केम्पस, शिवाजी नगर, भोपाल में स्थापित है. जो कि हमारा प्रथम पार्टनर सिद्धार्थ ठाकुर पुत्र श्री मदन ठाकुर यह कि मैं अपनी स्वेच्छा से उक्त फर्म से अपनी भागीदारी समाप्त कर मेरे स्थान पर मेरी पत्नी श्रीमती शुभांगी सिंह पत्नी श्री सिद्धार्थ ठाकुर को भागीदारी के रूप में नियुक्त किया गया है. यह कि उक्त फर्म में भविष्य में मेरी किसी प्रकार से कोई भागीदारी या अंश नहीं रहेगा. यदि किसी व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशित दिनांक से सात दिन भीतर उक्त कम्पनी पते पर सम्पर्क करें.

Apple Media & Entertainment

PRATEEK DIXIT

(Partner).

शॉप नं. 7, विश्वनाथ मंदिर,

केम्पस नगर, भोपाल.

(125-बी.)

PUBLIC NOTICE

Known all men that the 2 new partners Hemant Kumar Mulchandani & Smt. Netra Mulchandani have been admitted and after admission of new partners old partner Shri Arjundas Mulchandani has been retired in the registered firm **M/s PARASRAM MULCHANDANI [Reg. No. 1374, Year 1984-85 Dt. 28-07-1984]**, Jabalpur at the close of business hours of 02-06-2015 and new constitution is w.e.f. 03-06-2015.

That the registered office of the Firm **M/s PARASRAM MULCHANDANI, JABALPUR [Reg. No. 1374, Year 1984-85 Dt. 28-07-1984]**, has been shifted from Plot No. 77, House No. 1, Ravan Park, Ranjhi Basti, Jabalpur to 316, Vijay Nagar Extension, Main Road, Ranjhi Bazar, Jabalpur w. e. f. 03-06-2015.

For : M/s Parasram Mulchandani

PARASRAM MULCHANDANI

(Partner).

(127-B.)

PUBLIC NOTICE

Known all men that the Shri Pramod Choudhari S/o Shri Choudhari Babulal Jain have been admitted along with six old partners and Shri Surendra Tiwari S/o Late Damodar Prasad Tiwari have been retired from the registered firm **M/s Radhyeshyam Associates, Jabalpur (Reg. No. 04/14/01/00400/13, Year 2012-13 Dated 14-03-2013)**, w.e.f. 31-03-2015.

For : M/s Radhyeshyam Associates

ANSHUL MALIK

(Partner).

(126-B.)

आम सूचना

“मेसर्स अथर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर्स” में संशोधन के सम्बन्ध में

मेरे पक्षकार “मेसर्स अथर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर्स” जिसका वर्तमान पता-ई-7/28, लाला लाजपत राय सोसायटी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल है, की ओर से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि (1) श्री आयुष मुदड़ा आत्मज श्री कृष्ण कुमार मुदड़ा, (2) श्री चेतन्य शर्मा आत्मज श्री विनोद कुमार शर्मा, (3) श्री सत्यवीर कौशल आत्मज श्री विजेन्द्र कौशल एवं (4) श्री अभिजीत त्रिपाठी आत्मज श्री दयाराम त्रिपाठी ने

दिनांक 13-02-2014 को "मेसर्स अथर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर्स" के नाम से भागीदारी फर्म का गठन किया गया था. संशोधित भागीदारी फर्म दिनांक 18-05-2015 के अनुसार उक्त फर्म में से श्री सत्यवीर कौशल आत्मज श्री विजेन्द्र कौशल एवं श्री अभिजीत त्रिपाठी आत्मज श्री दयाराम त्रिपाठी, रिटायर्ड हो गये तथा भागीदारी फर्म में दिनांक 18-05-2015 से (1) श्री आयुष मुदड़ा आत्मज श्री कृष्ण कुमार मुदड़ा एवं (2) श्री चेतन्य शर्मा आत्मज श्री विनोद कुमार शर्मा बचे हैं, उपरोक्त दोनों भागीदारों के अतिरिक्त उक्त भागीदारी फर्म के अन्य कोई भी भागीदार शेष नहीं बचे हैं, अब उक्त भागीदारी फर्म में श्री आयुष मुदड़ा एवं श्री चेतन्य शर्मा भागीदार हैं, उनके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से उक्त फर्म के नाम से किसी भी प्रकार का लेनदेन समव्यवहार न करें.

सुरेश चौधरी

(अधिवक्ता)

कार्यालय-एम. 02, लिक्टो चैम्बर,
प्लॉट नं. 18, जोन-1, ज्योति टाकीज चौराहा,
एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.).

(128-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s RAISINGH AND COMPANY, having office at Ward no 26, Prem Nagar Balaghat (M.P.), a partnership firm incorporated on 25/01/1983, having Ten Partners as (1) Shri Raisingh Machhirke, (2) Shri Ganpat Machhirke, (3) Shri Manmohan Machhirke, (4) Shri Radheshyam Machhirke, (5) Shri Omkarsingh Machhirke, (6) Shri Mukund Lilhare, (7) Shri Shyamlal Lilhare, (8) Shri Shambhu Lilhare, (9) Shri Mehatar Machhirke, (10) Shri Umadas Lilhare,. On 31/03/1992 Shri Ganpat Macchirke, Shri Shyamlal Lilhare and Shri Shambhu Lilhare has retired from the firm . **Thus with effect from 01/04/1992 as per new partnership deed**, there shall be Seven partners in-the firm namely (1) Shri Raisingh Machhirke, (2) Shri Manmohan Machhirke, (3) Shri Radheshyam Machhirke, (4) Shri Omkarsingh Machhirke, (5) Shri Umadas Lilhare, (6) Shri Mukund Lilhare, (7) Shri Mehatar Machhirke. This Public Notice is being published for the purpose of registration of changes in constitution of the firm with office of Registrar of Firms and Society.

M/s RAISINGH AND COMPANY
RADHESHYAM MACHHIRKE

(Partner).

(129-B.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s RAISINGH AND COMPANY, having office at Ward no 26, Prem Nagar Balaghat (M.P.), a partnership firm originally incorporated on 25/01/1983 and thereafter governed by amended partnership deed dated 01/04/1992 having Seven partners in the firm namely (1) Shri Raisingh Machhirke, (2) Shri Manmohan Machhirke, (3) Shri Radheshyam Machhirke, (4) Shri Omkarsingh Machhirke (5) Shri Umadas Lilhare, (6) Shri Mukund Lilhare, (7) Shri Mehatar Machhirke. With effect from 01/04/1996, there has been changes in the terms and condition of the Partnership Firms due to which a new Partnership Deed dated 01/04/1996 with seven number of partners namely (1) Shri Raisingh Machhirke, (2) Shri Manmohan Machhirke, (3) Shri Radheshyam Machhirke, (4) Shri Omkarsingh Machhirke (5) Shri Umadas Lilhare, (6) Shri Mukund Lilhare, (7) Shri Mehatar Machhirke. This Public Notice is being published for the purpose of registration of changes in the constitution of the firm in the office of Registrar of Firms and Society.

M/s RAISINGH AND COMPANY
RADHESHYAM MACHHIRKE

(Partner).

(129-A-B.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s RAISINGH AND COMPANY, having office at Ward no 26, Prem Nagar Balaghat (M.P.), a partnership firm originally incorporated on 25/01/1983 and thereafter governed by amended partnership deed dated 01/04/1992 and thereafter deed dated 01/04/1996 having Seven partners in the firm namely (1) Shri Raisingh Machhirke, (2) Shri Manmohan Machhirke, (3) Shri Radheshyam Machhirke, (4) Shri Omkarsingh Machhirke (5) Shri Umadas Lilhare, (6) Shri Mukund Lilhare, (7) Shri Mehatar Machhirke. With effect from 01/04/2002, there has been changes in the constitution of the Partnership Firms such that Shri Mukund Lilhare has retired from the firm and ten new partners has been admitted namely (1) Shri Ganpat Machirke, (2) Shri Narendra Machhirke, (3) Shri Dilipkumar Machhirke, (4) Shri Mukeshkuamr Machhirke, (5) Shri Rajesh Kumar Machhirke, (6) Shri Rajkumar Basone, (7) Shri Dalpat Machhirke, (8) Shri Hiralal Machhirke, (9) Shri Kasturchand Machhirke and (10) Shri Shyamlal Lilhare. Thus with effect from 01/04/2002 there are Sixteen number of partners in the firm namely (1) Shri Raisingh Machhirke, (2) Shri Manmohan Machhirke, (3) Shri Radheshyam Machhirke, (4) Shri Omkarsingh Machhirke, (5) Shri Umadas Lilhare, (6) Shri Mehatar Machhirke, (7) Shri Ganpat Machirke, (8) Shri Narendra Machhirke,

(9) Shri Dilipkumar Machhirke, (10) Shri Mukeshkumar Machhirke (11) Shri Rajesh Kumar Machhirke, (12) Shri Rajkumar Basone, (13) Shri Dalpat Machhirke, (14) Shri Hiralal Machhirke, (15) Shri Kasturchand Machhirke and (16) Shri Shyamlal Lilhare. This Public Notice is being published for the purpose of registration of changes in the constitution of the firm in the office of Registrar of Firms and Society.

M/s RAISINGH AND COMPANY
RADHESHYAM MACHHIRKE

(129-B-B.)

(Partner).

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s RAISINGH AND COMPANY, having office at Ward no 26, Prem Nagar Balaghat (M.P.), a partnership firm originally incorporated on 25/01/1983 and thereafter governed by amended partnership deed dated 01/04/1992 and thereafter deed dated 01/04/1996 and thereafter deed dated 01/04/2002 having sixteen partners namely (1) Shri Raisingh Machhirke, (2) Shri Manmohan Machhirke, (3) Shri Radheshyam Machhirke, (4) Shri Omkarsingh Machhirke, (5) Shri Umadas Lilhare, (6) Shri Mehatar Machhirke, (7) Shri Ganpat Machirke, (8) Shri Narendra Machhirke, (9) Shri Dilipkumar Machhirke, (10) Shri Mukeshkumar Machhirke, (11) Shri Rajesh Kumar Machhirke, (12) Shri Rajkumar Basone, (13) Shri Dalpat Machhirke, (14) Shri Hiralal Machhirke, (15) Shri Kasturchand Machhirke and (16) Shri Shyamlal Lilhar, With effect from 01/04/2005, there has been changes in the constitution of the Partnership Firms such that Shri Shyamlal lihare has retired from the firm and Four new partners has been admitted namely (1) Shri Laxman Lilhare, (2) Shri Surendra Lilhare, (3) Shri Hagru Lilhare, (4) Shri Karulal Lilhare. **Thus with effect from 01/04/2005 there are Nineteen number of partners in the firm namely-** (1) Shri Raisingh Machhirke, (2) Shri Manmohan Machhirke. (3) Shri Radheshyam Machhirke (4) Shri Omkarsifgh Machhirke (5) Shri Umadas Lilhare, (6) Shri Mehatar Machhirke (7) Shri Ganpat Machirke, (8), Shri Narendra Machhjrke, (9) Shri Dilipkumar Machhirke, (10) Shri Mukeshkumar Machhirke, (11) Shri Rajesh Kumar Machhirke, (12) Shri Rajkumar Basone, (13) Shri Dalpat Machhirke, (14) Shri Hiralal Machhirke, (15) Shri Kasturchand Machhirke (16) Shri Laxman Lilhare, (17) Shri Surendra Lilhare, (18) Shri Hagru Lilhare and (19) Shri Karulal Lilhare. This Public Notice is being published for the purpose of registration of changes in the constitution of the firm in the office of Registrar of Firms and Society.

M/s RAISINGH AND COMPANY
RADHESHYAM MACHHIRKE

(129-C-B.)

(Partner).

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, भोपाल

प्र.क्र. 04/बी-113/2014-15.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि "जायन पेन्टिकॉस्टल क्रिस्टियन चैरिटेबल ट्रस्ट" द्वारा फादर मेथ्यु वर्गिस, पता-123 सी सेक्टर, साईनाथ कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 30 जून, 2015 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : "जायन पेन्टिकॉस्टल क्रिस्टियन चैरिटेबल ट्रस्ट" द्वारा फादर मेथ्यु वर्गिस, पता-123, सी सेक्टर, साईनाथ कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल.
2. चल सम्पत्ति : 50,000/- रुपये मात्र.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.

आज दिनांक 29 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

माया अवस्थी,
रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास इटारसी, जिला होशंगाबाद

प्र.क्र.01/बी-113(1)वर्ष 2014-15.

जारी, दिनांक 01 जून, 2015

ग्राम-जुझारपुर.

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रदीप अहिरवार बल्द प्रेमनारायण अहिरवार अन्य 3, निवासी-ग्राम जुझारपुर के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्याय अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर "रविदास फुले साहू अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थान" ट्रस्ट का पंजीकरण किये जाने का अनुरोध किया है, उक्त न्यास का गठन ग्राम जुझारपुर, मकान नम्बर 96, वार्ड नम्बर 09, तहसील इटारसी में किया जावेगा.

अतः उपरोक्त सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति इशतहार प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के बाद प्राप्त आपत्ति विचारणीय नहीं होगी.

राजकुमार खत्री,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(328)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, आष्टा, जिला सीहोर

प्र.क्र.01/बी-113/2014-15.

आष्टा, दिनांक 12 मई, 2015

न्यास का नाम

माँ पार्वती परमार्थिक ट्रस्ट गांधी चौक आष्टा जिला सीहोर.
मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन बावत्.

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण श्री महेन्द्र कुमार मूंदड़ा आ. श्री बाबूलाल मूंदड़ा आदि, निवासीगण आष्टा द्वारा माँ पार्वती परमार्थिक ट्रस्ट गांधी चौक आष्टा, जिला सीहोर का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के अंतर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः मैं, नरोत्तम भार्गव, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, आष्टा, जिला सीहोर मध्यप्रदेश अपने न्यायालय में उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ कि:-

1. उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियाँ, सुझाव देने का विचार रखता हो, उन्हें इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह की अवधि में इस न्यायालय में लिखित रूप से दो प्रतियों में अपनी आपत्ति अथवा सुझाव मेरे समक्ष व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि 30 दिवस समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा. इस प्रकरण में प्रस्तुत होने वाली आपत्तियों पर सुनवाई के लिए दिनांक 12 जून, 2015 नियत की जाती है. नियत दिनांक को इस न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति एवं सुझाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करें.

अनुसूची

- | | | |
|------------------|----|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम | .. | माँ पार्वती परमार्थिक ट्रस्ट गांधी चौक आष्टा. |
| 2. अचल सम्पत्ति | .. | प्लॉट स्थित म्यू. नं. 1/08, वार्ड नं. 8 गांधी चौक आष्टा,
जिला सीहोर मध्यप्रदेश. |
| 3. चल सम्पत्ति | .. | निरंक. |

आज दिनांक 12 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

नरोत्तम भार्गव,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(325)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड जावरा, जिला रतलाम

जावरा, दिनांक 29 मई, 2015

फार्म-4

[नियम-5(1)देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) के तहत]

क्र./1307/रीडर-1/15.—आवेदक अध्यक्ष श्री धरमचंद पिता केसरीमल चपडोद, निवासी पिपलीबाजार जावरा व अन्य सदस्यों द्वारा धारा-4(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट विधान के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाकर आनंदी हनुमान शांतिवाटिका शहर, जावरा का ट्रस्ट पंजीयन करने हेतु निवेदन किया गया है. जिसकी सुनवाई दिनांक 22 जून, 2015 को उपखण्ड कार्यालय, जावरा पर प्रातः 11.00 बजे की जावेगी.

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 22 जून, 2015 को इस कार्यालय में अपना लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं यह अपने अधिवक्ता अथवा अपने एजेन्ट के द्वारा नियत समय पर उपस्थित हों। निर्धारित नियत दिनांक व समय पर उपस्थित नहीं होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का पूरा नाम आनंदी हनुमान शांतिवाटिका शहर, जावरा, तहसील जावरा, जिला रतलाम.
2. अचल सम्पत्ति का विवरण आनंदी हनुमान शांतिवाटिका शहर, जावरा में 2 बड़े हॉल, पतरापोश सेट, बगीचा, स्नानगृह, हनुमानजी का मंदिर, पानी की टंकी एवं खुली भूमि कृषि भूमि, सर्वे नं. 756 रकबा 0.506 हेक्टर, सर्वे नं. 578 रकबा 0.190 हेक्टर एवं सर्वे नं. 758 रकबा 0.569 हेक्टर भूमि.
3. चल व अचल सम्पत्ति का विवरण चार सेट पतरापोश, 2 बड़े हॉल एवं खुली भूमि की किमत लगभग रुपये 5,00,000/- (अक्षरी रुपये चार लाख मात्र) तथा रु. 7,41,000 विभिन्न दानदाताओं से प्राप्त.

सतीश कुमार एस,

रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(327)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन

प्र. क्र./ 01/बी-113 (1)/2014-15.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30, 1951) की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन.

चूंकि प्रार्थी अध्यक्ष "श्री पुष्टि परिवार मध्यप्रदेश" खरगोन द्वारा ट्रस्ट "श्री पुष्टि परिवार मध्यप्रदेश" के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक-30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ. क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1.	नगद	—	—	11,000.00
2.	अचल सम्पत्ति	—	—	—

महेन्द्र सिंह कवचे,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(326)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, कटनी, जिला कटनी

क्र./परि./2015/क्यू.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी के द्वारा परिसमापनाधीन निम्नानुसार उनके नाम के आगे आदेश क्र. एवं दिनांक द्वारा परिसमापक नियुक्त किया जाकर संस्थाओं की लेनदारी, देनदारी का निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया

गया है विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	समिति के नाम व पता	पं. क्र./दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	2.	3.	4.
1.	गुलेमाने रूमी महिला सहकारी समिति मर्या., कटनी	161/6-6-2014	311/6-4-2015
2.	दुर्गा उपभोक्ता भण्डार मर्या., महाराणा प्रताप वार्ड, कटनी	162/6-6-2014	312/6-4-2015
3.	पंचशील उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., महात्मागांधी वार्ड, कटनी	163/6-6-2014	313/6-4-2015
4.	श्री विघ्न विनाशक उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., अम्बेडकर वार्ड, कटनी	164/6-6-2014	314/6-4-2015
5.	अनुपमा महिला प्राथ. उप.भं. सहकारी समिति मर्या., नेहरू, वार्ड, कटनी	165/6-6-2014	315/6-4-2015
6.	माँ भागवती महिला उप. सहकारी भण्डर मर्या., श्यामाप्रसाद मुकर्जी वार्ड, कटनी	166/6-6-2014	316/6-4-2015
7.	गुरूकृपा उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., रघुनाथ गंज वार्ड, कटनी	167/6-6-2014	317/6-4-2015
8.	माँ शेरवाली उप. सहकारी समिति मर्या., शास्त्री वार्ड, कटनी	168/6-6-2014	318/6-4-2015
9.	सत्य साई महिला उप. सहकारी समिति मर्या., किदवई वार्ड, कटनी	169/6-6-2014	319/6-4-2015
10.	माँ जालपा महिला उप. सहकारी समिति मर्या., मालवीय गंज वार्ड, कटनी	170/6-6-2014	320/6-4-2015
11.	गुरूनानक उप. सहकारी समिति मर्या., विवेकानन्द वार्ड, कटनी	171/6-6-2014	321/6-4-2015
12.	हरिओम उप. सहकारी समिति मर्या., सी. एल. पी. वार्ड, कटनी	172/6-6-2014	322/6-4-2015
13.	शिवा कमर्शियल सर्विसेज सहकारी समिति मर्या., कटनी	173/6-6-2014	323/6-4-2015
14.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गुबराधरी, जिला कटनी	178/6-6-2014	328/6-4-2015
15.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सिधनपुरी, जिला कटनी	179/6-6-2014	329/6-4-2015
16.	शिवशंकर विकलांग ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., कटनी	180/6-6-2014	330/6-4-2015
17.	माँ शारदा महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बल्लभ भाई पटेल वार्ड, कटनी	181/6-6-2014	331/6-4-2015
18.	गायत्री महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., मालवीयगंज कटनी	182/6-6-2014	332/6-4-2015
19.	माँ वैष्णो महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., वीरसावरकर वार्ड, कटनी	183/6-6-2014	333/6-4-2015
20.	रानी दुर्गावती महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जयप्रकाश वार्ड, कटनी	184/6-6-2014	334/6-4-2015
21.	श्री गणेश महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., किदवई वार्ड, कटनी	185/6-6-2014	335/6-4-2015
22.	माँ शक्ति महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जाकिर हुसेन वार्ड, कटनी	186/6-6-2014	336/6-4-2015
23.	महारानी अहिल्यादेवी महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., रघुनाथगंज, कटनी	187/6-6-2014	337/6-4-2015
24.	महिला कल्याण ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., सुभाष वार्ड, कटनी	188/6-6-2014	338/6-4-2015
25.	मौलाना आजाद महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., रामनिवाससिंह वार्ड, कटनी	189/6-6-2014	339/6-4-2015
26.	पुरैनी महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बालगंगाधर तिलक वार्ड, कटनी	190/6-6-2014	340/6-4-2015
27.	कल्याण महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., हेमू कॉलोनी वार्ड, कटनी	191/6-6-2014	341/6-4-2015
28.	राम कृष्ण ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., परमहंस वार्ड, कटनी	192/6-6-2014	342/6-4-2015
29.	जय भवानी महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., आजाद वार्ड, कटनी	193/6-6-2014	343/6-4-2015
30.	जयमाता महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जगमोहन दास वार्ड, कटनी	194/6-6-2014	344/6-4-2015

1.	2.	3.	4.
31.	शिव ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., राजीव गांधी वार्ड, कटनी	195/6-6-2014	345/6-4-2015
32.	रविन्द्रनाथ टैगोर ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., टैगोर वार्ड, कटनी	196/6-6-2014	346/6-4-2015
33.	श्री कृष्णा ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., राम मनोहर लोहिया वार्ड, कटनी	197/6-6-2014	347/6-4-2015
34.	जय माँ काली महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., व्यंकट वार्ड, कटनी	198/6-6-2014	348/6-4-2015
35.	जन सेवा महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जालपा देवी वार्ड, कटनी	199/6-6-2014	349/6-4-2015
36.	माँ अम्बे ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., गायत्री, नगर अम्बेडकर वार्ड, कटनी	200/6-6-2014	350/6-4-2015
37.	शिव महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., आचार्य विनोवा भावे वार्ड, कटनी	201/6-6-2014	351/6-4-2015
38.	माँ शारदा देवी महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., महात्मा गांधी वार्ड	202/6-6-2014	352/6-4-2015
39.	हनुमानगंज महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., हनुमानगंज वार्ड, कटनी	203/6-6-2014	353/6-4-2015
40.	जागृति महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., महाराणा प्रताप वार्ड, कटनी	204/6-6-2014	354/6-4-2015
41.	माँ गायत्री महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., अम्बेडकर वार्ड, कटनी	205/6-6-2014	355/6-4-2015
42.	श्री सती महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., गुरुनानक वार्ड, कटनी	206/6-6-2014	356/6-4-2015
43.	जागृति महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., इन्दिरागांधी वार्ड, कटनी	207/6-6-2014	357/6-4-2015
44.	ऊँ शान्ति ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., फारेस्टर वार्ड, कटनी	208/6-6-2014	358/6-4-2015
45.	के. जी. एन. के. डब्ल्यू. बी. महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., पाठक, वार्ड भट्टा मोहल्ला, कटनी.	209/6-6-2014	359/6-4-2015
46.	सहकारिता विभाग कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., कटनी	210/6-6-2014	360/6-4-2015
47.	कलेक्ट्रेट क्लक्स क्रेडिट एण्ड केटीन सहकारी समिति मर्या., कटनी	211/6-6-2014	361/6-4-2015
48.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर साख सहकारी समिति मर्या., गायत्री नगर, कटनी	213/6-6-2014	362/6-4-2015
49.	लक्ष्मी साख सहकारी समिति मर्या., कटनी	214/6-6-2014	363/6-4-2015
50.	राममनोहर लोहिया श्रम ठेका मजदूर सहकारी समिति मर्या., कटनी	215/6-6-2014	364/6-4-2015
51.	चौहान खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., कैमोर, जिला कटनी	216/6-6-2014	365/6-4-2015
52.	पाण्डव ठेका सहकारी समिति मर्या., विजयराघवगढ़, जिला कटनी	217/6-6-2014	366/6-4-2015
53.	बारडोली बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नदीपार, कटनी	218/6-6-2014	367/6-4-2015
54.	आदिवासी, अ. जा. दलिया आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., कटनी	219/6-6-2014	368/6-4-2015
55.	खाद्य, अखाद्य, तेल एवं ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., ईश्वरीपुरा वार्ड, कटनी	220/6-6-2014	369/6-4-2015

अतः मैं, एस. के. जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था/संस्थाओं के प्रति जिस किसी के पास कोई दावा आपत्तियां या रिकार्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयवाधि के पश्चात् दावे, आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई भी रिकार्ड/परिसंपत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें. अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

एस. के. जैन,

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विजयराघवगढ़, जिला कटनी

कटनी, दिनांक 06 मई, 2015

क्र./परि./2015/क्यू.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी के द्वारा परिसमापनाधीन निम्नानुसार उनके नाम के आगे आदेश क्र. एवं दिनांक द्वारा परिसमापक नियुक्त किया जाकर संस्थाओं की लेनदारी, देनदारी का निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	समिति के नाम व पता	पं. क्र./दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	2.	3.	4.
1.	विश्वनाथ उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., बरही, जिला कटनी	174/6-6-2014	324/6-4-2015
2.	प्राथमिक महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खलवारा, जिला कटनी	175/6-6-2014	325/6-4-2015

अतः मैं, अरविन्द कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था/संस्थाओं के प्रति जिस किसी के पास कोई दावा आपत्तियां या रिकार्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयवाधि के पश्चात् दावे, आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई भी रिकार्ड/परिसंपत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें. अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

अरविन्द कुमार जैन,

(311)

सह. निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बहोरीबन्द, जिला कटनी

कटनी, दिनांक 06 मई, 2015

क्र./परि./2015/क्यू.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी के द्वारा परिसमापनाधीन निम्नानुसार उनके नाम के आगे आदेश क्र. एवं दिनांक द्वारा परिसमापक नियुक्त किया जाकर संस्थाओं की लेनदारी, देनदारी का निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	समिति के नाम व पता	पं. क्र./दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	2.	3.	4.
1.	शारदा बहुउद्देशीय महिला सहकारी समिति मर्या., पडवार, जिला कटनी	176/6-6-2014	326/6-4-2015
2.	आदर्श बहुउद्देशीय महिला सहकारी समिति मर्या., नैगवां, तहसील बहोरीबन्द	177/6-6-2014	327/6-4-2015

अतः मैं, ए. एस. तोमर, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट), सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था/संस्थाओं के प्रति जिस किसी के पास कोई दावा आपत्तियां या रिकार्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयवाधि के पश्चात् दावे, आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई भी रिकार्ड/परिसंपत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें. अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

ए. एस. तोमर,

(312)

वरि. सह. निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2015-ज्येष्ठ 22, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 11 फरवरी, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर, डबरा (ग्वालियर), दतिया, भाण्डेर (दतिया), नरवर, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), मुंगावली (अशोकनगर), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), छतरपुर, राजनगर, विजावर, बड़ामलहरा, बक्स्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, पवई (पन्ना), बंडा, सागर, केसली (सागर), जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्परजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), सुबासरा टप्पा, भानपुरा, मल्हारगढ़, मंदसौर, श्यामगढ़, संजीत, कयामपुर (मंदसौर), खाचरौद, महिदपुर, घटिया, बड़नगर (उज्जैन), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़, ब्यावरा (राजगढ़), भैंसदेही, शाहपुर, बैतूल, मुल्ताई, आठनेर, आमला (बैतूल), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, मझौली, कुन्डम (जबलपुर), बिछिया, मंडला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी, बजाग (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील भितरवार (ग्वालियर), दतिया (दतिया), करैरा, कोलारस (शिवपुरी), अशोकनगर, ईसागढ़, चन्देरी (अशोकनगर), जतारा, बल्देवगढ़ (टीकमगढ़), लवकुशनगर, गौरीहार, नौगांव (छतरपुर), सीतामऊ (मंदसौर), घोड़ाडोंगरी (बैतूल), निवास, नैनपुर (मण्डला), शाहपुरा (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील चिचोली (बैतूल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—शिवपुरी, खनियाधाना (शिवपुरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला उमरिया में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला उमरिया, नरसिंहपुर में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.—राज्य के प्रायः अधिकांश जिलों में फसल स्थिति सामान्यतः ठीक रहना प्रतिवेदित किया गया है.

5. कटाई.—जिला बैतूल में फसल गन्ना की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, उमरिया, उज्जैन, विदिशा, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 11 फरवरी, 2015

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, राई-सरसों, चना; अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
*जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूंगमोठ, तुअर, मूंगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	4.3				
2. डबरा	9.6				
3. भितरवार	28.0				
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	1.0				
2. दतिया	19.0				
3. भाण्डेर	12.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	81.5				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	56.0				
4. नरवर	16.0				
5. करैरा	28.2				
6. कोलारस	26.2				
7. पोहरी	17.0				
8. बदरवास	14.0				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	7.0		4. (1) उड़द, चना अधिक. सोयाबीन, गन्ना गेहूँ कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	18.0		(2) ..		
3. अशोकनगर	30.0				
4. चन्देरी	29.0				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	13.0		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	7.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	26.0				
4. टीकमगढ़	16.0				
5. बल्देवगढ़	21.0				
6. पलेरा	9.0				
7. ओरछा	5.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुश नगर	24.0		4. (1) तुअर, जौ अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	18.0		(2) ..		
3. नौगांव	26.8				
4. छतरपुर	11.0				
5. राजनगर	7.8				
6. बिजावर	9.0				
7. बड़ामलहरा	1.0				
8. बकस्वाहा	7.2				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	13.4		4. (1) जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज अधिक. गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, मटर, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	12.0		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	4.0				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, आलू, प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	1.2				
4. सागर	3.4				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	6.0				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना राई-सरसों अधिक. मसूर, अलसी, जौ, अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. गयपुरकर्जुलियान	..				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. राहर, गेहूँ कम. अलसी, राई-सरसों, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	4.8				
2. अनूपपुर	9.2				
3. कोतमा	5.4				
4. पुष्पराजगढ़	8.4				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, अरहर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी अधिक. सोयाबीन कम. तिल समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	2.4				
2. पाली	6.0				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) चना, गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी, मसूर, राई-सरसों, जौ, आलू समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	9.0		4. (1) गेहूँ चना, रायड़ा कम.	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	3.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मल्हारगढ़	3.0				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	7.0				
6. श्यामगढ़	0.1				
7. सीतामऊ	23.0				
8. धुन्धड़का	..				
9. संजीत	3.0				
10. कयामपुर	10.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. चना, मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..		
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	5.0		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	5.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	..				
4. घटिया	4.0				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	3.0				
7. नागदा	..				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुमनेर	..		(2) ..		
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापपीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) मक्का अधिक. चना, कपास कम. गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..		
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) गेहूँ, चना कम. कपास, तुअर, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..		
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..		
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..		
3. इन्दौर	..				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	..				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, राई-सरसों, अलसी अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		(2) ..		
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	15.0		4. (1) कपास, तुअर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	12.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	12.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	4.0		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	4.0		अधिक. गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	7.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	7.0				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तुअर, गन्ना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..		
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर अधिक. चना, मटर, लाख, तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..		(2) . .		
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गन्ना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	11.2		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	34.2				
3. शाहपुर	10.8				
4. चिचोली	43.3				
5. बैतूल	16.0				
6. मुलताई	16.6				
7. आठनेर	1.2				
8. आमला	14.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) चना, मटर, तुअर अधिक. मसूर कम. गेहूँ समान. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	3.8		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. पाटन	14.2				
3. जबलपुर	8.8				
4. मझौली	4.3				
5. कुण्डम	7.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों गेहूँ, जौ, मटर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. सोयाबीन, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	23.0		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	7.6		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. नैनपुर	18.2				
4. मण्डला	16.0				
5. घुघरी	10.6				
6. नारायणगंज	7.1				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. पाला तुषार से अरहर फसल प्रभावित हुई है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	3.2		4. (1) तुअर कम. मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	7.2		(2) ..		
3. शाहपुरा	25.0				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांढुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. बोलखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) धान, मक्का, तुअर, गन्ना अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों कम. तिल, सन, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला भिण्ड, गुना, शहडोल, देवास, बड़वानी 5 जिलों से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(309)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.